

LOK SABHA

Tuesday, August 13, 1968/*Sravana* 22,
1890 (*Saka*)

*The Lok Sabha met at Eleven of the
Clock.*

[MR. SPEAKER in the Chair]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

AREA UNDER JUTE CULTIVATION

*451. SHRI S. K. TAPURIAH :
Will the Minister of COMMERCE be
pleased to state :

(a) whether Government are aware
that this year area under jute sowing
will be considerably lesser as compared
to that of last year;

(b) whether this, coupled with the
fact that rains in May last were consi-
derably less, will reduce the size of
the jute crop; and

(c) the steps taken by Government
to mitigate this shortage and to ensure
that this largest export earning industry
is not adversely affected ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE
MINISTRY OF COMMERCE (SHRI
MOHD. SHAFI QURESHI) : (a) and
(b). Yes, Sir.

(c) Government have already autho-
rised the import of 75,000 bales of
superior quality raw jute to meet the
immediate requirements. The question
of further imports is being considered.
Efforts will be made to see that shortage
of raw material does not affect produc-
tion and exports.

SHRI S. K. TAPURIAH : After
textiles, jute is the second industry in
charge of this ministry, which is now
facing a crisis. In this industry also,
as in the other, ministerial failings have
been aided by the vagaries of nature and
the problems are increasing. This year

our production of raw jute is expected
to be 55 lakh bales as against our
annual requirements of 75 lakh bales,
which means a shortfall of 20 lakh
bales. You can reduce it by 3 or 4 lakh
bales due to curtailed production by
jute mills. Still, there will be a shortage
of at least 15 lakh bales. But Govern-
ment has decided to import only 75,000
bales. May I know what other steps
they will take in view of the world
shortage of raw jute this year? It is
expected that India, Pakistan and Thai-
land combined will have a raw jute
production of 110 lakh bales whereas
the world requirement is 170 lakh bales.
May I know what steps they are going
to take immediately, so that we may
not have to pay high prices if we take
a decision later ?

SHRI MOHD. SHAFI QURESHI :
Due to vagaries of nature, we have a
shortfall in production. But the hon.
member should realise that we have al-
ready taken steps and we are importing
75,000 bales. Regarding other steps,
as and when we make an assessment
about the shortfall, necessary imports
will be made. I would like to inform
the House that a proposal for importing
3.55 lakh bales to meet the shortage
of jute is under consideration.

SHRI S. K. TAPURIAH : Sir, I
would like to bring it to your notice
that the estimates of the Government
are very wrong. Last year also they
went on saying that our production will
be so good that we will be exporting
raw jute. But their expectations went
off by nearly 35 lakh bales.

Since they had been proved wrong in
their estimate last year, this time will
they please listen to others? Ever
since April, we have been trying to warn
the minister that there is going to be a
shortfall. Will they take sufficient care
to import at least 10 lakh bales within
this month or within six weeks ?

THE MINISTER OF COMMERCE (SHRI DINESH SINGH): The hon. member is usually fairly well informed and sometimes gives us some information which we take into consideration. He will appreciate that we have got to look at the position of jute produced in this country and to have a proper price for that jute. If we import 10 lakh bales today, what will be the effect on the local production? All these things have to be taken into account. We shall certainly try to import jute as and when it becomes necessary, but at the same time, we have also got to keep in mind that the price of locally produced jute is not depressed artificially. All these things have to be borne in mind and we shall do our best, because the hon. member says, there is world shortage of jute. What can we do in a world shortage?

श्री विमूर्ति मिश्र : अध्यक्ष महोदय, जूट की खेती इसलिए कम हो रही है क्योंकि इसके दाम के बारे में बड़ी अनसर्टेनटी है। जो सेठ लोभ हैं वे सरकार पर दबाव डालते हैं और सरकार बाहर से जूट का इम्पोर्ट करती है जिसका नतीजा यह होता है कि जो जूट हम लोग अपने देश में पैदा करते हैं उसकी कीमत गिर जाती है और हमको साहस नहीं होता है कि जूट की खेती कर सकें। तो मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि क्या वह जूट की ऐसी कीमत निश्चित करने जा रही है जोकि किसान के लिए रेम्यूनरेटिव हो? दूसरी बात यह है कि सरकार बाहर से जो जूट मंगाती है उसको बैन करने पर विचार कर रही है ?

श्री मुहम्मद शफ़ी कुरैशी : अभी मन्त्री महोदय ने इस बात का जवाब दिया है कि हमने जूट की सपोर्ट प्राइस मुकर्रर की है। पहले सन् 65-66 में 30 रु० प्राइस थी जिसको कि अब हम 40 रुपये पर ले आये हैं और इस वक्त तो इसकी प्राइस 40 रुपये से भी ऊपर है। इसके अलावा बाहर से जो जूट आयेगा उसको भी इस तरह से लाया जायेगा कि उसका असर यहां की लोकल प्राइस पर न पड़े।

श्री विमूर्ति मिश्र : जब डा० रामसुभग सिंह जी मिनिस्टर थे तब जूट की कीमत 30 रु० थी और अब 40 रु० हो गई है लेकिन यह मुनासिब कीमत कैसे हुई ?

SHRI SURENDRANATH DWIVEDY: Sir, this oft-repeated policy that we are giving support price to jute cultivation has not actually worked to the benefit of agriculturists. Is it not a fact that even though Rs. 40 is the support price fixed at Calcutta actually it is sold at Rs. 20 and Rs. 25 in places like Orissa, Bihar and Uttar Pradesh and the agriculturists do not get this price of Rs. 40 with the result that they are not very enthusiastic to take to jute cultivation? If that is so, have Government reviewed this position and would they change their policy so that the agriculturists at their own places get at least Rs. 45 a month?

SHRI MOHD. SHAFI QURESHI : The prices we have fixed after the report of the Agricultural Prices Commission. They went in detail into the whole production system of jute and other crops. It was only on their suggestion that the bottom price was fixed at Rs. 40. At this time the prices are very much above the bottom price and therefore there is no question of reviewing the matter at this stage. The matter would be taken into consideration when the prices get depressed or show a tendency to do so.

SHRI LILADHAR KOTOKI : In view of the fact that it cannot be a correct policy of the Government to import raw jute due to export of manufactured jute goods and in view of the fact that the price support for jute that has been fixed has not proved to be sufficient incentive for increase in jute production and, on the other hand, jute production is going down, may I know whether Government propose to take up this matter with the Ministry of Food and Agriculture and see that there is comparative pricing of food crops, sugarcane and jute so that there is no undue adverse effect on the production of jute?

SHRI MOHD. SHAFI QURESHI : This is a suggestion, Sir, which will be given due consideration.

श्री शिवचरण लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूँ कि पटसन की खरीद सरकार द्वारा क्यों नहीं की जाती है और किसानों को पटसन के पूरे दाम देने के लिए उत्तर प्रदेश में सरकार कब से पटसन खरीदना शुरू कर रही है ?

श्री मुहम्मद शफी कुरंशी : किसानों की सेफगार्ड के लिए, ताकि उनको अच्छे दाम मिलें, गवर्नमेंट ने पालिसी बनाई है। यह पालिसी किसी एक खास स्टेट के लिए नहीं है बल्कि सारे देश के लिए है। जहाँ पर भी कहीं हम देखते हैं कि जूट की प्राइस 40 रुपये से नीचे गिरने की टेन्डेन्सी है वहाँ पर हम ने मुख्तलिफ एजेन्सीज के जरिए से खरीद की है।
(व्यवधान)

श्री शिवचरण लाल : यह गलत है।

श्री मुहम्मद शफी कुरंशी : मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, इस वक्त तो किसानों की मदद करने का सवाल भी पैदा नहीं होता है क्योंकि 40 रुपये की सपोट प्राइस जो मुकर्रर की हुई है उससे दस बारह रुपए ऊपर की कीमत पर पटसन बिक रहा है।

श्री चंद्रिका प्रसाद : मैं जानना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में पटसन की कितनी खेती होती है और इस मानसून का उस पर क्या असर पड़ा है ?

श्री मुहम्मद शफी कुरंशी : इस वक्त इस की इत्तला नहीं है। इस के लिए नोटिस की जरूरत होगी।

SHRI N. K. SOMANI : Sir, India is steadily losing ground in the world market in the matter of exports of hessian goods *vis-a-vis* Pakistan. I hope the hon. Minister knows that during that months January to May 1968 hessian sales to America from Pakistan

have increased by 50 million yards while the same from this country has gone down by about 21 million yards. In view of the very important position occupied by jute industry and the fact that jute is highly speculative and important commodity would it not be worthwhile to build up a buffer stock of raw jute from all sources other than Pakistan, like Thailand and other countries, so that our world market is safeguarded and we have a steady future for this industry.

SHRI DINESH SINGH : I entirely agree with the hon. Member that we should have a buffer stock of jute and that is why last year we started this buffer stock for raw jute and also for jute goods. The idea of a buffer stock is that there will be sufficient raw material stored by making purchases when the price falls to be utilized during the period when the price is high.

श्री का० ना० तिवारी : मंत्री महोदय ने जवाब देते हुये कई बातें कह दीं जैसे कि बौटम प्राइस जूट की ठीक हो गयी है और उस पर खरीद होती है जोकि सही नहीं है। मंत्री महोदय ने यह भी कह दिया कि जो भाव तय किया गया है 40 रुपये उस से वह जूट 10-15 रुपये ज्यादा बिक रही है। मंत्री महोदय की यह बात भी सही नहीं है कि वह ज्यादा पर बिक रही है। हम लोग काश्तकार हैं और हम खुद जूट बेचने वाले हैं और इसलिए हम जानते हैं जूट हम 25 रुपये से लेकर 28 रुपये तक ही बेच पाते हैं उससे ज्यादा दाम पर नहीं बेच पाते। मैं जानना चाहता हूँ कि यह जो पालिसी है कि जूट के बौटम प्राइस से दाम जब बाजार में नीचे जाय तो काश्तकार से वह खरीद ली जाय तो गवर्नमेंट ने 1967-68 में कितनी पटसन इस तरीके से खरीदी है चाहे वह कोआपरेटिव के जरिए से खरीदी हो चाहे गवर्नमेंट की दूसरी एजेन्सीज के जरिए से खरीदी हो ?

दूसरा सवाल मेरा यह है कि इस साल मुहक की जूट की कितनी रिक्वायरमेंट है और यहाँ पर कितनी इंडिजिनस जूट पैदा होने की उम्मीद है ?

श्री मुहम्मद शफी कुरैशी : जहां तक पटसन की कीमत का ताल्लुक है उस के लिए जैसे मैंने पहले अर्ज किया है कि गवर्नमेंट ने उस की कीमत 40 रुपये मुकरर की है और जब भी 40 रुपये से कम कीमत हुई या गिरने का अंदाज हुआ तो गवर्नमेंट ने एक मशीनरी जो उस के पास थी उस को लाकर खड़ा किया (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह बात सही नहीं है ।

श्री मुहम्मद शफी कुरैशी : जहां तक मेरी इत्तिला का ताल्लुक है मैंने उसे हाउस को बतला दिया है । हमारे पास एक जिम्मेदार अफसर जूट कमिश्नर है और उस की यह रिपोर्ट है (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अफसर गलत बात कहता है ।

श्री अटल बिहारी वाजपयी : वह जूट कमिश्नर नहीं अपितु झूठ कमिश्नर है ।

श्री मुहम्मद शफी कुरैशी : इस वक्त जो कीमत है बोटम असम वैराइटी की वह 50 रुपये से लेकर 53 रुपये तक है (व्यवधान)

श्री क० ना० तिवारी : मैंने पूछा है कि कितनी सरकार ने खरीदी है चाहे कोआपरेटिव के जरिए या अपनी सरकारी एजेंसी के जरिए और कितना इंडिजनस प्रोडक्शन इस साल होने की उम्मीद है और लास्ट इयर कितना हुआ था ?

श्री मुहम्मद शफी कुरैशी : इस साल हमारा अंदाजा है कि तकरीबन 65 लाख बेल्स से कुछ कम प्रोडक्शन होगा । रहा यह सवाल कि कितनी जूट स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन और कोआपरेटिव के जरिए खरीदी गई है तो उसकी इत्तिला इस वक्त हमारे पास नहीं है ।

श्री विभूति मिश्र : कलकत्ते में असम बोटम वैरायटी के दाम 40 रुपये हैं जबकि और जगह 40 रुपये भी नहीं है ।

श्री लखन लाल कपूर : मैं उस ऐरिया से आता हूँ जहां से कि लाखों, लाख मन जूट हर साल कलकत्ते को सप्लाई होती है। मंत्री महोदय ने जवाब देते हुए कहा है कि उस के दाम 40 रुपये से नीचे होने पर हमारी एजेंसी जूट को खरीद लेती है । मैं कहना चाहता हूँ कि यह सौ फीसदी गलत बात है और यह सत्य से उतनी ही दूर है जितना कि जमीन से आसमान । मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूँ कि वह आप को एकदम गलत रिपोर्ट करते हैं । मैं जानना चाहता हूँ कि बिहार और असम के उन क्षेत्रों में जहां कि पटसन होता है तो किस किस मशीनरी से आप ने खरीद की है और कितने रुपये की खरीद की है ?

दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूँ कि यह जो आप ने 40 रुपये के दाम मुकरर किये हैं तो 66-67 के साल में लोकल मार्केट्स से वहां के व्यापारि ने किस रेट में किसानों से उसे खरीदा है ? तीसरी बात मैं यह जानना चाहता हूँ कि भारत में पटसन की कमी है तो उस कमी को पूरा करने के लिए क्या आप अपने साइंटिस्ट्स के द्वारा कोई ऐसा तरीका निकलवा रहे हैं जिससे कि सिंथेटिक प्रोडक्ट्स पैदा कर सकें ?

श्री दिनेश सिंह : यह जो 40 रुपये के भाव के बारे में कहा गया तो माननीय सदस्य जानते हैं कि यह 40 रुपये का भाव जो मुकरर किया गया था वह असम बोटम वैराइटी का कलकत्ते के लिए था और इसलिए मेरी समझ में नहीं आता कि इसमें माननीय सदस्य के लिए इतने ताज्जुब की क्या बात है ? (व्यवधान)

श्री समर गुहा : ताज्जुब की बात यह है कि कलकत्ते में भी वह उस रेट पर नहीं बिकी है ।

एक माननीय सदस्य : सत्य बात मंत्री महोदय के सिर पर चढ़ कर बोल रही है ।

श्री दिनेश सिंह : माननीय सदस्य शायद उस वक्त यहां नहीं थे जबकि पिछली मर्तबा

मैंने सपोर्ट प्राइस का जिक्र किया था। उस वक्त भी मैंने यही कहा था कि यह 40 रुपये कलकत्ते में होगी और जगह उस से कम होगी इसलिए इसमें कोई तारजूब दिखाने की बात नहीं है।

यह ठीक है कि कलकत्ते में भी जूट का दाम 40 रुपये से कुछ हफ्तों में कम हुआ था। 39 रुपये 50 पैसे वहां कुछ हफ्तों में हुआ और हमने उस कमी को पूरा करने की कोशिश की है।

जहां तक किसानों को उचित मूल्य मिलने का सम्बन्ध है वह उचित मूल्य जूट का उन्हें उसी वक्त मिल सकेगा जबकि उसके माल को बेचने के लिए वहां पर कोआपरेटिव बनें और माननीय सदस्य अगर ऐसी कोआपरेटिव बनाने में मदद करें, उस के लिए वह कोशिश करें तो उसमें असली मदद किसान की हो सकती है... (व्यवधान)। जहां तक माननीय सदस्य ने यह पूछा है कि क्या जूट की कमी को दूर करने के लिए सरकार उस का सिपैटिक प्रोडक्ट तैयार करवाने के बारे में विचार करेगी तो उस के लिए मेरा कहना है कि माननीय सदस्य खुद ही विचार करें कि ऐसा करना किसान के लिए वास्तव में कितना उपयोगी सिद्ध होगा।

श्री मधु सिमये : व्यापार और वित्त मंत्री की अक्रमण्यता के कारण देश को हर दिन 8 लाख रुपये का घाटा हो रहा है। अभी जूट की अभाव की हम चर्चा कर रहे हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या उन का ध्यान इस बात की ओर गया है कि हिन्दुस्तान में पैदा हुआ जूट नेपाल के घाम पर तस्कर व्यापार के जरिए विलायत भेजा जाता है, निर्यात होता है और उस से जो विदेशी मुद्रा मिलती है उस के जरिए बाहर से चीजें नेपाल में महंगाई जाती हैं और भारत में बेची जाती हैं जैसे कि यह टैरिलीन है या यह स्टेनलैस स्टील के युटिसिल्स हैं। क्या व्यापार मंत्रालय ने 14 फरवरी 1967 और 1 फरवरी 1966 को जो नोटिफिकेशंस जारी किये हैं, नेपाल और भारत के बीच में जो संधि हुई

थी उस के अन्तर्गत यह नोटिफिकेशंस जो संधि हुई है उस की जो परिभाषा के, बिलकुल खिलाफ नहीं है। अब जबकि जूट की कमी है और जूट तस्करी व्यापार के जरिए बाहर जा रहा है और 8 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा का हमें प्रतिदिन घाटा हो रहा है कस्टम ड्यूटी बगैरह, तो मंत्री महोदय का इस बात की ओर ध्यान गया है और जिन दो नोटिफिकेशंस का मैंने अभी उल्लेख किया उनमें वह कुछ तबदीली अथवा परिवर्तन करेंगे क्योंकि वह संधि के बरखिलाफ है? संधि में कहा गया था कि नेपाल में जो कच्चा माल पैदा होता है उसके आधार पर वहां जो उद्योग हैं उनकी पैदावार हिन्दुस्तान में आ सकती हैं लेकिन यह लोग नेपाल के बाहर से मंगा रहे हैं, यह परदबी माल देश में आ रहा है और यह लाख रुपये का रोजाना घाटा हो रहा है तो इस के बारे में सही सही स्थिति जरा मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करें।

श्री मधु सिमये : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिन बातों का जिक्र किया है उन की तरफ हमारा भी ध्यान गया है। इस के सम्बन्ध में हम नेपाल सरकार से बातें कर रहे हैं। हमारी नेपाल से संधि है जिसकी वजह से हमारे और उन के देश के बीच में सामान आदि चीजों के लिए यातायात खुला हुआ है बाकी कुछ कठिनाइयां, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा, आई हैं और उन को हमें देखना है। हम उन के बारे में नेपाल सरकार से बातचीत करेंगे जिससे कि वह दूर हो सकें। इस के लिये मैं नहीं समझता कि यह मुनासिब होगा कि हम अपनी तरफ से कोई कदम उठायें। उन से इसके बारे में हमारी बात चीत चल रही है।

श्री विनेश सिंह : सन्धि में तस्कर व्यापार के लिये तो कोई इन्तजाम नहीं किया गया है। तस्कर व्यापार का इन्तजाम तो उन के नोटिफिकेशन के द्वारा होता है।

श्री नवल किशोर शर्मा : मैं आप के जरिये से मंत्र महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या यह सहनहों है कि हिन्दुस्तान के जूट का जो एक्सपोर्ट अमरोका को होता है उसमें हमारी आमदनों

दिन पर दिन गिरती जा रही है, और इसका मुख्य कारण पाकिस्तान की जूट नीति है, जिस की वजह से वहां का एक्सपोर्ट अमरीका में 15 से 30 प्रतिशत तक बढ़ गया है। मैं जानना चाहता हूँ कि भारत सरकार ने इस दिशा में क्या सोचा है और क्या उस ने हमारी जूट अर्निंग्स बढ़ाने के बारे में कोई फैसला किया है? अगर किया है तो क्या मंत्री महोदय उस के, बारे में सदन को कोई जानकारी देना चाहेंगे?

श्री बिनेश सिंह : इस [का] में कई मतबों जिक्र कर चुका हूँ इसी सदन में कि जूट का जो हमारा यहां का कारोबार है उस को बढ़ाने के लिये हम क्या कर रहे हैं। माननीय सदस्य ने जो पाकिस्तान का जिक्र किया उस के बारे में भी कह दूँ कि यह कोई छिपी हुई बात नहीं है कि इसमें बहुत से पेच हैं। यह कह देना कि पाकिस्तान जिस तरह से उस को बढ़ा रहा है, जो उन के वाउचर्स का तरीका है या इन्सेन्टिव हैं उनको हम फौरन अपना लें और वैसा हम करने लगे, यह ठीक नहीं है क्योंकि वह हमारी एका-नमो के लिये लाभदायक नहीं होगा। इस लिये कि पिछली मर्तबा जो इन्सेन्टिव दिये गये उन का जो परिणाम हुआ उस के बारे में माननीय सदस्य जानते हैं। इस लिये हम को अपने यहां की जो हालत है जो इमकान है उन को देखकर काम करना पड़ता है उस के हिसाब से हम कोशिश कर रहे हैं ताकि जो हमारा जूट का व्यापार है उस को रक्षा हो सके और वह आगे बढ़ सके।

SHRI D. N. PATODIA : Referring to the statement made by the hon. Minister that India proposes to import 3,55,000 bales very soon, may I know whether licences have been issued, what is the machinery for import and during what period this jute is going to be imported and from where?

SHRI MOHD. SHAFI QURESHI : This proposal is under the consideration of the Government.

SHRI D. N. PATODIA : During what period do they propose to import?

SHRI MOHD. SHAFI QURESHI : The decision will be taken very soon.

श्री शारदानन्द : मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से गन्ने की कीमत किसान को उचित न मिलने के कारण गन्ने का उत्पादन कम हो गया है क्या उसी प्रकार से यह सत्य नहीं है कि पटसन की कीमत गिरने के कारण काश्तकारों को उस से लाभ नहीं हो रहा है और वह जूट की खेत नहीं कर रहे हैं? दूसरी चीज में यह जानना चाहता हूँ कि पटसन को जितनी जरूरत है उस को पूरा करने के लिये सरकार ने कोई योजना बनाई है? अगर योजना बनाई है तो वह क्या है और कितने सालों में हम जूट के मामले में आत्म-निर्भर हो जायेंगे?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : पिछले 25 मिनट से इसी बात पर चर्चा हो रही है कि किसान को इस वक्त जो दाम पटसन के मिल रहे हैं उस में कमी होने का सवाल पैदा नहीं होता। जहां तक हमारी खपत का सवाल है, उस में जितनी कमी होगी उस को असेस करने के बाद अगर जरूरत पड़ी तो उस का आयात भी किया जायेगा।

श्री द्वा० ना० तिवारी : अभी मंत्री महोदय ने कहा कि कलकत्ता को मार्केट में पटसन का भाव 40 रु० है। मैं जानना चाहता हूँ कि बिहार में प्राइमरी मार्केट में उसकी क्या कीमत है और किसानों से प्राइमरी मार्केट में कितने मूल्य पर लिया जाता है?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : इस की इतना हमारे पास इस वक्त नहीं है।

श्री लखन साह कपुर : तब फिर आप किस मर्ज की दबा है?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : अमर मर्ज नूकतलिफ है तो मुकतलिफ दबा ही काम करती है।

SHRI SAMAR GUHA : In view of the fact, so far as the jute cultivators are concerned, that the price of rice

is three times the price of jute, a large area of jute production has been diverted to rice production and, secondly, due to recent floods which affected very vitally the jute production area of 24-Parganas and other areas, taking all that into consideration, may I know what in the estimate of the Government will be the calculated loss of production of jute this year and, in view of that loss, whether the Government has taken into account that the imported amount will meet this loss and whether, as a permanent measure, jute production area will be extended to Dhoobri-Golpara area of Tripura and also to Cachar area where there is a probability of good jute production ?

SHRI DINESH SINGH : We would certainly welcome greater areas coming under jute production. We have spent some time over this matter. I would only like the House through you to bear one point in mind. The question of price of jute has been raised several times and the feeling that perhaps the farmer is not getting an equitable share....

SHRI SURENDRA NATH DWIVEDI : It is not 'perhaps', it is a fact.

SHRI DINESH SINGH : The point in all these things is what should be the equitable price. That is a matter of opinion. The hon. Member may feel that any price may be given. But then it will have its impact on the cost of production of jute goods and its sale. We have to compete in a world market. If the price of raw jute is very much higher in our country than the world price of raw jute, how will we compete in world market ? All these things have to be taken into consideration by Government before fixing a price. If the hon. Member would like us to fix any price for jute, we can certainly do it, but then I would like him to tell me who will buy the jute goods. How will he then run these mills ? Therefore, all these things have to be taken into consideration... (Interruptions).

SHRI SAMAR GUHA : I categorically asked about the estimated loss due

to diversion of jute acreage to rice acreage and also due to recent floods.

SHRI DINESH SINGH : We are short of rice also, and if we have more rice, how is it a loss ?

श्री इबेन सेन : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या यह बात सच है कि जूट के उत्पादन में कमी के कारण जूट मिलों के मासिक घमकियाँ दे रहे हैं कि जूट मिलों में काम के घंटों को बह घटायेंगे और छंटनी करेंगे दो तीन दिनों के अन्दर। इसी को ले कर जूट बर्कर्स ने स्ट्राइक भी किया। इस के बारे में मंत्री महोदय ने क्या सोचा है ?

श्री मुहम्मद शाफी कुरंजी : इस बाब को लिये हम कोशिश करेंगे कि यहाँ रा मंटीरिबल की कमी न हो।

श्री एस० एम० बोली : अध्यक्ष महोदय, मैं आप की मदद चाहता हूँ। हम ने इस प्रश्न पर आधा घंटा लगाया, लेकिन सवाल के बारे में मंत्री महोदय से जो जानकारी हमें मिलती है उस से हमारे दिमाग को किसी प्रकार का प्रकाश नहीं मिलता है। जब किसानों को उचित मूल्य नहीं मिलता है तब गर्बनमेंट खुद किसानों से उस को क्यों नहीं खरीदती ? इस बात को लेकर सारी बातें चलीं। बतलाया गया कि 40 रु० तक उस का भाव है। जब बार-बार उन से कहा गया कि वह इस बारे में क्या सोच रहे हैं तब दूसरे मंत्री उठ कर खड़े हुए और कहा कि कलकत्ते में यह रेट है। उस के बाद कहते हैं कि कोआपरेटिव सोसायटी बनाओ। हम लोग पूछ रहे हैं कि किसानों को मदद देने के लिये और इस को एरिया को बढ़ाने के लिये क्या नीति है और दाम जो फिक्स किये गये हैं वह किसान को उचित रूप से मिलें इस के लिये सरकार ने क्या किया है। इस का कोई जवाब नहीं दिया गया है। मैं चाहता हूँ कि मंत्री महोदय इस के लिये कोई स्टेटमेंट दे दें।

श्री दिनेश सिंह : इतनी देर से मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं तो कहूँगा कि जो

बातमें कह रहा हूँ उस को माननीय सदस्य ध्यान पूर्वक सुनें तो शायद इस के लिये बाद में जो गहत्तफहमी है वह दूर हो।

श्री लखन लाल कपूर : अभी तक मंत्री महोदय जंगल में भटक रहे थे दिशाहीन होकर।

श्री दिनेश सिंह : जहां तक जूट के दाम का सवाल है, मुझे ताज्जुब है कि माननीय सदस्य आज पहली बार सुन रहे हैं 40 रु० के बारे में। यह तो मैंने साल भर इस सदन में कहा है और न मालूम कितनी बर्तबा इसे दोहराया है कि असम बाटम का दाम कलकत्ते में 40 रु० होगा। कई मंत्रिंये यह बात कही गई है।

श्री योगेन्द्र शर्मा : आप प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को क्या देते हैं यह तो बतलाइय।

श्री दिनेश सिंह : मैंने यही कहने की कोशिश की है, अगर आप सुनने की तकलीफ़ फरमायें। प्रोड्यूसर को अब कितनी कीमत मिले यह इस के ऊपर निर्भर है कि बाजार में 40 रु० या उस के ऊपर कितना दाम था। उसी हिसाब से बढ़ता घटता रहा है। दामों का अभी जिक्र आया है। आज दाम पचास रुपये के ऊपर हैं। उसके हिसाब से उनको मिलेंगे। जहां तक अलग अलग जगह की बात है, अलग अलग मंडी में अलग अलग भाव रहता है क्योंकि उसके ऊपर ट्रान्स्पोर्ट का खर्चा जुड़ता है, वहां तक जाने का खर्चा होता है, स्टोरेज का खर्चा जुड़ता है कोई आदमी यह नहीं कह सकता है कि कहां के किसान को कितना मिलेगा जब तक यह न मालूम हो कि किस किसान के बारे में और कहां के किसान के बारे में पूछ रहे हैं। अगर आप यह बतायें तो मैं पता लगाऊंगा कि वहां की मंडी की औसत कीमत कितनी रही है (इंटरप्शन)

MR. SPEAKER : Will the hon. Member kindly sit down? May I request him to sit down now?

श्री योगेन्द्र शर्मा : कोई जवाब ही नहीं आता है कि क्या कीमत मिली।

श्री लखन लाल कपूर : उत्तर ही नहीं है इनके पास।

MR. SPEAKER : Order, order. He has been shouting too much from the beginning. I have not allowed him. Now, he must sit down.

श्री योगेन्द्र शर्मा : शाउट नहीं करना चाहते हैं। आघा घंटा खर्च कर दिया गया है लेकिन संतोषजनक उत्तर ही नहीं मिल सका है।

RELEASE OF VESSELS BY PAKISTAN

*453. **SHRI HIMATSINGKA :** Will the Minister of COMMERCE be pleased to state :

(a) whether any efforts have been made during the past three months to resolve the dispute between India and Pakistan for the exchange of vessels and cargo seized during the 1965 Indo-Pakistan conflict; and

(b) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF COMMERCE (SHRI DINESH SINGH) : (a) and (b). The Government have, in keeping with the Tashkent Declaration, repeatedly affirmed to discuss at an early date the question of return of properties and assets which also include vessels and cargoes taken over by either Government. The last note in this respect bringing out the general question of return of goods was sent on 28-6-1968 by the Ministry of External Affairs to the High Commission for Pakistan in India.

MR. SPEAKER : I think this question was answered only a few days back.

SHRI DINESH SINGH : This has been discussed here so many times.

SHRI HIMATSINGKA : May I know whether it is a fact that only in May this year Government decided to release the Pakistani vessel seized by India from the Kutch area, and whether it is also a fact that despite various unilateral steps taken by Government to release the Pakistani vessels and the